

# G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, SILIGURI

## SYLLABUS – STD. V

SESSION 2018-2019

### English

| TERM 1  | TERM 2   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Man who Fought Windmills (Story)</li> <li>• Sentences</li> <li>• Kinds of Sentences</li> <li>• Subject and Predicate</li> <li>• Transformation of Sentences</li> <li>• Capital Letters and Punctuation</li> <li>• Question Tags</li> <li>• Prefixes and Suffixes</li> <li>• Visiting France (Story)</li> <li>• Letter Writing - Informal</li> <li>• Nouns</li> <li>• Kinds of Nouns</li> <li>• Number</li> <li>• Gender</li> <li>• The Beautiful Spring(Poem)</li> <li>• A Pod of my own Story (Story)</li> <li>• Diary Entry</li> <li>• Washing Clothes with my Mom</li> <li>• Adjectives</li> <li>• Kinds of Adjectives</li> <li>• Degrees of Comparison</li> <li>• The Half Built House (Story)</li> <li>• Unseen Comprehension</li> <li>• Creative Writing</li> <li>• Robinson Crusoe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articles</li> <li>• Jahan Has Visitors (Story)</li> <li>• Punctuation</li> <li>• Jahan Offers Breakfast (Story)</li> <li>• Adverbs</li> <li>• Kinds of Adverbs</li> <li>• Degree of Adverbs</li> <li>• Letter Writing (Formal)</li> <li>• Simple Tenses</li> <li>• Present and Past Participles</li> <li>• Continuous Tenses</li> <li>• Perfect Tenses(Present and Past)</li> <li>• The Mango Story (Story)</li> <li>• How the Little Kite learned to Fly (Poem)</li> <li>• Prepositions</li> <li>• Direct and Indirect Speech</li> <li>• The Spider and the Fly (Play)</li> <li>• The Pedlar's Caravan(Poem)</li> <li>• Conjunctions</li> <li>• Creative Writing (Email Writing)</li> <li>• Unseen Comprehension</li> <li>• Robinson Crusoe</li> </ul> |

### EVS

| TERM 1   | TERM 2  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relationship s</li> <li>• Water</li> <li>• Plants and animals</li> <li>• Holiday homework</li> <li>• Food</li> <li>• Me and my body</li> <li>• Shelter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Space walk</li> <li>• Environment and fuel</li> <li>• Soil and rocks</li> <li>• Historical monuments</li> <li>• Health and safety</li> <li>• Revision</li> </ul> |

## COMPUTER

| <b>TERM-1</b>   | <b>TERM-2</b>   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evolution of computers</li> <li>• Using mail merge</li> <li>• Understanding windows 10</li> <li>• Working with tables</li> <li>• More on power point 2016</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatting a presentation</li> <li>• One note</li> <li>• Programming in scratch</li> <li>• Microsoft excel 2016</li> <li>• Internet and email</li> </ul> |

## MATHS

| <b>TERM - 1</b>   | <b>TERM - 2</b>   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Large Numbers</li> <li>• The Four Fundamentals Operations</li> <li>• Factors And Multiples</li> <li>• Decimals</li> <li>• Fractions</li> <li>• Geometry</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentage</li> <li>• Time</li> <li>• Measurement</li> <li>• Perimeter Area and Volume</li> <li>• Money</li> <li>• Data Handling</li> <li>• Symmetry and Patterns</li> </ul> |

## 2<sup>ND</sup> LANGUAGE

### HINDI

| <b>TERM 1</b>   | <b>TERM 2</b>   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• भाषा और व्याकरण</li> <li>• वर्ण विचार</li> <li>• खिलौनावाला</li> <li>• संज्ञा</li> <li>• लिंग</li> <li>• वचन</li> <li>• सर्वनाम</li> <li>• स्वामी की दादी</li> <li>• विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द</li> <li>• बिशन की दिलेरी</li> <li>• विषेशण</li> <li>• राख की रस्सी</li> <li>• क्रिया</li> <li>• फसलों के त्योहार</li> <li>• छोटी सी हमारी नदी</li> <li>• औपचारिक पत्र</li> <li>• अनुच्छेद</li> <li>• चित्रवर्णन</li> <li>• अपठित गद्यांश</li> <li>• Revision</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• विरामचिह्न</li> <li>• नन्हा फनकार</li> <li>• मुहावरे</li> <li>• चावल की रोटियाँ</li> <li>• काल</li> <li>• अशुद्धि शोधन</li> <li>• एक माँ की बेबसी</li> <li>• श्रुतिसमझितार्थक शब्द</li> <li>• गुरु और चेला</li> <li>• चुनौती हिमलाय की</li> <li>• अनेक शब्दों के लिये एक शब्द</li> <li>• पर्यायवाची शब्द</li> <li>• जहाँ चाह वहाँ राह</li> <li>• अनुच्छेद एवं चित्र वर्णन</li> <li>• औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र</li> <li>• अपठित पद्यांश (Revision)</li> <li>• कहानी लेखन</li> </ul> |

## NEPALI

| TERM 1   | Term 2   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• देशको माया (कविता)</li> <li>• भाषा र व्याकरण</li> <li>• क्रोधी राजकुमारी(कथा)</li> <li>• लक्खीदेवी सुन्दास(साहित्यिक परिचय)</li> <li>• संज्ञा</li> <li>• कुलको इज्जत(पौराणिक कथा)</li> <li>• आइन्स्टाइन (जीवनी)</li> <li>• सर्वनाम</li> <li>• हिमालय (कविता)</li> <li>• विशेषण</li> <li>• पर्यायवाची शब्द</li> <li>• विपरीत शब्द</li> <li>• निबन्ध</li> <li>• पत्र रचना</li> <li>• अपठित गद्यांश/पद्यांश</li> <li>• Revision</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• शैशव स्मृति (कविता)</li> <li>• क्रिया</li> <li>• साँचो मित्रता(कथा)</li> <li>• हेनरी फार्ड (जीवनी)</li> <li>• बलिराजा (कथा)</li> <li>• सन्धि</li> <li>• झरना(कविता)</li> <li>• वचन</li> <li>• सार शब्द</li> <li>• लिङ्ग</li> <li>• काल</li> <li>• अनुकरणात्मक शब्द</li> <li>• भिन्नार्थक शब्द</li> <li>• चित्र वर्णन</li> <li>• निबन्ध</li> <li>• पत्र रचना</li> <li>• अपठित गद्यांश/पद्यांश</li> </ul> |

## BENGALI

| TERM 1  | TERM 2   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shakuntala</li> <li>• Charane pranam</li> <li>• Samacharita vinnarthok shabdo</li> <li>• Dhwani o barna</li> <li>• Barshar dine</li> <li>• Paribona</li> <li>• Revision</li> <li>• Bisheshya pad</li> <li>• Bisheshan pad</li> <li>• Chhelabela</li> <li>• Note boi</li> <li>• Bachan</li> <li>• Pad paribaryan</li> <li>• Anucched</li> <li>• Patra</li> <li>• Bodh parikhan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panta buri</li> <li>• Pallijanani</li> <li>• Sarbonam pad</li> <li>• Maharam</li> <li>• Pnipreder samaj byabostha</li> <li>• Lingo</li> <li>• Dayalu</li> <li>• Swarasandhi</li> <li>• Vadu pujo</li> <li>• Biporitarthok shabdo</li> <li>• kriya pad</li> <li>• Samarthok shabdo</li> <li>• Anuchched lekhan</li> <li>• Patta lekhan</li> <li>• Bodh parikhan</li> <li>• Recapitulation</li> </ul> |

**3<sup>RD</sup> LANGUAGE**

**HINDI**

| <b>TERM 1</b>  | <b><u>Term 2</u></b>   |
|--|--|
| <p>1.स्वर एवं व्यंजन वर्ण</p> <p>2.दो अक्षरों के अमात्रिक शब्द</p> <p>3.तीन अक्षरों के अमात्रिक शब्द</p> <p>4.चार अक्षरों के अमात्रिक शब्द</p> <p>5.मात्राएँ एवं स्वरों से मात्राओं का मिलान</p> <p>6.फलों, फूलों, रंगों, जानवरों और दिनों एवं महीनों के नाम</p> | <p>1.आ से औं तक की मात्रा वाले शब्द</p> <p>2.अं, अः और चंद्रबिंदू वाले शब्द</p> <p>3.Ch 14,15,16</p> |

**BENGALI**

| <b>TERM 1</b>  | <b>TERM 2</b>  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jhilmil- Book 1</li> <li>• Chapter 3- Barnamala (pg 12-15)</li> <li>• Chapter 7- KAR CHINHO (upto U)</li> <li>• Dui akshar shabdo tairi (page 73-75)</li> <li>• Chapter 9- Sankhya (1-10)</li> <li>• Chapter 10- Kathay Likhi (1-10)</li> <li>• Chapter 1- Rang, Aamader Sharir.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapter 3- Barnamala (pg 12-15)</li> <li>• Chapter 7- KAR CHINHO (upto AU)</li> <li>• Shabdo tairi (pg 76-78)</li> <li>• Sankhya- 11-20</li> <li>• Kathay Likho- 11-20</li> <li>• Name of fruits</li> <li>• Name of flowers</li> <li>• Name of animals</li> <li>• Name of birds.</li> </ul> |

**NEPALI**

| <b>TERM 1</b>   | <b>TERM 2</b>   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वर वर्ण</li> <li>• व्यंजन वर्ण</li> <li>• सरल शब्द (अ – औ)</li> <li>• सरल वाक्य</li> <li>• <b>सरल शब्द</b></li> <li>• मात्रा</li> <li>• चित्र वर्णन</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• मात्रा</li> <li>• नेपाली बारको नाम</li> <li>• नेपाली महिनाको नाम</li> <li>• पशु, पछी, फल, फुल र साग सब्जीको नाम</li> <li>• अंकहरूको नाम (1 देखि 40 तम्म)</li> <li>• शरीरका अगहरूको नाम</li> <li>• रचनात्मक लेखन</li> <li>• अनुवाद</li> </ul> |

## SANSKRIT

| TERM 1   | TERM 2  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● बन्दना (श्लोक)</li> <li>● संस्कृतवर्ण परिचयः</li> <li>● संयुक्तवर्णाः</li> <li>● पुलिंगं शब्दाः (अकारान्ताः)</li> <li>● स्त्रीलिंगं शब्दाः (अकारान्ताः)</li> <li>● नपुंसकलिंगं शब्दाः (अकारान्ताः)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● संस्कृतस्य शब्दकोषः</li> <li>● धातु (क्रिया) परिचय</li> <li>● संख्या (गणना)</li> <li>● शब्द रूप (बालक शब्द)</li> <li>● धातु रूप (पठ धातु) लट्ठकार<br/>वर्तमान काल</li> </ul> |

## FRENCH

| TERM 1  | TERM 2  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● INTRODUCTION OF FRENCH ALPHABETS AND NUMBERS</li> <li>● L'ALPHABET</li> <li>● LES NOMBRES</li> <li>● LA PRÉSENTATIONS</li> <li>● LES SALUTATIONS</li> <li>● LES PRONOMS</li> <li>● VERBE ÊTRE</li> <li>● LES NATIONALITÉS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● LES PROFESSIONS</li> <li>● LES L'ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS</li> <li>● QU'EST – CE QUE C'EST?</li> <li>● QUI EST – CE?</li> <li>● VERBE AVOIR</li> <li>● LES JOURS ET LES MOIS</li> <li>● LES COULEURS</li> </ul> |

